



पैरामट्टा लाइट रेल यात्रा का नया तरीका है, इसमें 16 स्टॉप हैं और यह सुबह 5 बजे से अगली सुबह 1 बजे के मध्य लगातार सेवाएँ प्रदान करते हुए पैरामट्टा सीबीडी (Parramatta CBD) के माध्यम से कार्लिंगफोर्ड (Carlingford) और वेस्टमीड (Westmead) को आपस में जोड़ता है।

पैरामट्टा लाइट रेल ओपल कार्ड टिकटिंग के साथ पूर्ण रूप से समन्वित, आधुनिक, आरामदायक, वातानुकूलित वाहन है, जिसमें व्हीलचेयर के लिए समर्पित स्थान और बाइक के लिए स्टोरेज रैक भी है। इसमें 400 यात्रियों को एक साथ ले जाने की क्षमता है और सभी के लिए पर्याप्त स्थान भी है।



पैरामट्टा लाइट रेल यात्रा का नया तरीका है

यूनिवर्सिटी तक जाना

- लाइट रेल के द्वारा तीन स्टॉप के माध्यम से वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी (Western Sydney University) तक पहुँचने के लिए सुविधाजनक सेवा प्रदान की जाती है।

कॉमबैंक स्टेडियम (CommBank Stadium) में गतिविधियों को देखने के लिए जाना

- यदि आप कॉमबैंक स्टेडियम में खेल देखने के लिए जा रहे हैं, तो यह प्रिंस अल्फ्रेड स्क्वायर (Prince Alfred Square) से थोड़ी ही दूरी पर है।

रोज़हिल गार्डन (Rosehill Gardens) में घूमने के लिए जाना

- यदि आप रोज़हिल गार्डन में घूमने के लिए जाने की योजना बना रहे/रही हैं, तो आप वहाँ लाइट रेल के माध्यम से आसानी से पहुँच सकते/ती हैं।

रात में बाहर खाना

- यदि आप पैरामट्टा सीबीडी में देर रात तक खाने के लिए योजना बना रहे/रही हैं तो लाइट रेल की यात्रा उचित है क्योंकि ये सेवाएँ सुबह 1 बजे तक रहती हैं।

शॉपिंग को आसान बनाना

- अपनी कार को घर पर छोड़ दें और नई लाइट रेल का लाभ उठाते हुए दुकानों पर जाएँ।

वेस्टमीड हेल्थ प्रीसिक्ट (Westmead Health Precinct) जाना

- आप वेस्टमीड हेल्थ प्रीसिक्ट में जहाँ जाना चाहते/ती हैं, वहाँ तीन स्टॉप के माध्यम से आसानी से पहुँच सकते/ती हैं।



नई पैरामट्टा लाइट रेल सेवा प्राप्त करना



ट्रेन

आप ट्रेन के माध्यम से पैरामट्टा और वेस्टमीड ट्रेन स्टेशन (Westmead train station) तक पहुँच सकते/ती हैं जहाँ से थोड़ी पैदल दूरी पर लाइट रेल स्थित है।



बस

आप स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से लाइट रेल स्टॉप तक या इससे थोड़ी पैदल दूरी तक पहुँच सकते/ती हैं।




फेरी

आप फेरी के माध्यम से पैरामट्टा घाट तक पहुँच सकते/ती हैं जहाँ से थोड़ी पैदल दूरी पर लाइट रेल स्थित है।



पैदल और बाइक से जाना

सिगनल युक्त क्रॉसिंग के साथ पैदल चलने और बाइक चलाने के नए रास्तों से लाइट रेल तक आसानी से पहुँचा जा सकता है।



आप अपनी बाइक से लाइट रेल तक जा सकते/ती हैं, बहुत से स्टॉप पर बाइक की स्टोरेज के लिए बाइक हूप्स उपलब्ध हैं, और यदि आप चाहें तो आप अपनी बाइक अपने साथ भी ले जा सकते/ती हैं क्योंकि प्रत्येक लाइट रेल वाहन पर चार बाइक रैक प्रदान किये गए हैं।

यात्रा का नया तरीका पैरामट्टा लाइट रेल (Parramatta Light Rail)



सुरक्षा, पहुँच और सुविधा

- पैरामट्टा लाइट रेल स्टॉप सुरक्षित, उचित प्रकाशदायक प्रतीक्षा स्थल और अगली सेवा के बारे में बताने के लिए हियरिंग लूप्स, मानचित्र और इलेक्ट्रॉनिक सूचना डिस्प्ले प्रदान करते हैं।
- पैरामट्टा लाइट रेल स्टॉप को प्लेटफॉर्म पर रैम्प पहुँच और व्हीलचेयर प्रतीक्षा स्थलों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है।
- प्रत्येक लाइट रेल वाहन में प्लेटफॉर्म स्तर के अनुसार फ़र्श और डबल डोर प्रदान किये गए हैं।

- प्रत्येक लाइट रेल वाहन में दो व्हीलचेयर के स्थान और चार बाइक रैक प्रदान किये गए हैं।
- आपकी यात्रा के दौरान आपको मदद प्रदान करने के लिए सहायता केन्द्र और यात्री सूचना उपलब्ध है।
- लाइट रेल के दरवाज़े अपने आप खुल जाते हैं। आपको चढ़ते या उतरते समय बटन दबाने की ज़रूरत नहीं होती।

नई लाइट रेल के बारे में और अधिक जानकारी transportnsw.info/parramatta-light-rail पर प्राप्त करें



Transport for NSW. इस ब्रोशर में केवल मार्गदर्शन के लिए जानकारी प्रदान की गई है और यह बिना किसी सूचना के किसी भी समय बदली जा सकती है।

लाइट रेल की यात्रा के दौरान और इसके आसपास सुरक्षित रहें

यात्री

- सुबह 5 बजे से अगली सुबह 1 बजे के मध्य लाइट रेल सेवाएँ लगातार प्रदान की जाती हैं, इसलिए भागदौड़ को कोई आवश्यकता नहीं है।
- निर्धारित क्रॉसिंग पॉइंट का प्रयोग करें और लाइट रेल ट्रेक को पार करते समय दोनों तरफ देखें।
- लाइट रेल वाहन पर चढ़ते और उतरते समय सावधानी बरतें।
- बंद हो रहे दरवाजों से दूर रहें और लाइट रेल वाहन पर चढ़ने से पहले बाहर निकल रहे लोगों को उतरने दें।
- प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा करते समय, प्लेटफॉर्म के किनारे से दूर रहें।
- छोटे बच्चों को अपने साथ ही रखें और स्टॉप पर या चढ़ते समय उनका हाथ पकड़े रखें।
- यात्रा के दौरान सावधानीपूर्वक बैठें और अचानक होने वाली गतिविधियों का ध्यान रखें।

बाइक चालक

- बाइक के साथ लाइट रेल ट्रेक को पार करते समय, पहियों को ट्रेक में फंसने से बचाने के लिए ट्रेक को सीधे पार करें।
- यदि आप ट्रेक को सीधे पार नहीं कर सकते हैं, तो बाइक से उतरकर पैदल ले जाना सुरक्षित है।
- कभी भी ट्रेक के साथ नहीं चलें।
- लाइट रेल वाहनों, यातायात, पैदल यात्रियों और अन्य बाइक सवारों से सावधान रहें।

पैदल यात्री

- हमेशा सतर्क रहें। लाइट रेल तेज़ी से और बिना शोर के चलती है और इसकी गति धीमी होने में भी कुछ समय लग सकता है।
- लाइट रेल वाहनों से सावधान रहें और अपना ध्यान फ़ोन से हटाएँ।
- कभी भी किसी लाइट रेल वाहन के ठीक सामने या पीछे से न गुजरें, क्योंकि ऐसे में अन्य चालक आपको देखने में असमर्थ होंगे।
- सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ देखें और फुटपाथ और पैदल यात्रियों के लिए क्रॉसिंग का प्रयोग करें।
- व्हीलचेयर या प्रेम के साथ लाइट रेल ट्रेक को पार करते समय, पहियों को ट्रेक में फंसने से बचाने के लिए ट्रेक को सीधे पार करें।

मोटर चालक

- कभी भी लाइट रेल ट्रेक पर न रुकें।
- ट्रैफिक सिग्नल और सड़क चिह्नों का पालन करें।
- लाइट रेल वाहनों, पैदल यात्रियों, बाइक सवारों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं से सावधान रहें।




और अधिक जानकारी के लिए transportnsw.info/light-rail-safety पर जाएँ

L4 वेस्टमीड और कार्लिंगफ़ोर्ड लाइन

नंबर	डेस्टिनेशन	लाइट रेल स्टॉप
1	वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी – वेस्टमीड कैम्पस (Western Sydney University – Westmead Campus)	वेस्टमीड (Westmead)
2	वेस्टमीड हेल्थ प्रीसिक्ट (Westmead Health Precinct)	वेस्टमीड (Westmead) वेस्टमीड हॉस्पिटल (Westmead Hospital) चिल्ड्रेन्स हॉस्पिटल (Childrens Hospital)
3	कम्बरलैंड हॉस्पिटल (Cumberland Hospital)	नगारा (Ngara)
4	कॉम्बैंक स्टेडियम (CommBank Stadium)	प्रिंस अल्फ्रेड स्क्वायर (Prince Alfred Square)
5	रिवरसाइड थियेटर्स (Riverside Theatres)	प्रिंस अल्फ्रेड स्क्वायर (Prince Alfred Square)
6	चर्च स्ट्रीट डाइनिंग प्रीसिक्ट (Church Street Dining Precinct)	चर्च स्ट्रीट (Church Street)
7	पैरामट्टा स्क्वायर (Parramatta Square)	पैरामट्टा स्क्वायर (Parramatta Square)
8	वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी – पैरामट्टा सिटी कैम्पस (Western Sydney University – Parramatta City Campus)	पैरामट्टा स्क्वायर (Parramatta Square)
9	रोज़हिल गार्डन्स रेसकोर्स (Rosehill Gardens Racecourse)	रोज़हिल गार्डन (Rosehill Gardens)
10	वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी – पैरामट्टा साउथ कैम्पस (Western Sydney University – Parramatta South Campus)	यालामुंडी (Yallamundi)
11	पैदल जाने और बाइक पर जाने के लिए साइज़ा रास्ता	कार्लिंगफ़ोर्ड (Carlingford) और टामवे एवेन्यू (Tramway Avenue) के बीच सभी स्टॉप

की

- L लाइट रेल स्टॉप
- B बस इंटरचेंज
- F फेरी घाट
- T ट्रेन स्टेशन



लाइट रेल यात्रा के लिए भुगतान करना

लाइट रेल ओपल सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क का हिस्सा है, जिसका अर्थ यह है कि आप अपने किराए का भुगतान अपने ओपल कार्ड, या किसी संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या लिंक किए गए किसी भी डिवाइस से कर सकते/ती हैं।



ओपल कार्ड का प्रयोग करना

प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ओपल रीडर पर, अपना ओपल कार्ड बोर्डिंग से पहले टैप (टैप-ऑन) करें और फिर अपनी यात्रा के अंत में दोबारा टैप (टैप-ऑफ) करें।

संपर्क रहित भुगतान का प्रयोग करना

आप अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टरकार्ड या वीज़ा क्रेडिट या डेबिट कार्ड या किसी स्मार्टफोन या स्मार्टवॉच जैसे लिंक किए गए डिवाइस का भी उपयोग कर सकते/ती हैं। आपसे वयस्क का किराया लिया जाएगा और वयस्क ओपल कार्ड के समान ही आप यात्रा लाभ और छूट प्राप्त करेंगे। सही किराया भुगतान और यात्रा लाभ प्राप्त करने के लिए हमेशा एक ही कार्ड या लिंक किए गए डिवाइस से ओपल रीडर पर टैप-ऑन और टैप-ऑफ करें।

टैप-ऑन और टैप-ऑफ करने वाले कार्ड को अलग रखें, ताकि आप अपने पसंदीदा कार्ड से भुगतान करना सुनिश्चित करें।



और अधिक जानकारी के लिए transportnsw.info/opal पर जाएँ